



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1767]

नई दिल्ली, बुधवार, दिसम्बर 17, 2008/अग्रहायण 26, 1930

No. 1767]

NEW DELHI, WEDNESDAY, DECEMBER 17, 2008/AGRAHAYANA 26, 1930

श्रम और रोजगार मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 17 दिसम्बर, 2008

का.आ. 2920(अ).—केन्द्रीय सरकार, श्रम और रोजगार मंत्रालय, सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 (2005 का 22) की धारा 2(ग) के साथ पठित धारा 5(1) के अंतर्गत श्रम और रोजगार मंत्रालय के माध्यस्थता बोर्ड में श्री नवीन कुमार सैनी, वरिष्ठ लिपिक, (न्यायिक) को 'लोक प्राधिकारी' अर्थात् माध्यस्थता बोर्ड हेतु केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी के रूप में तत्काल प्रभाव से तथा अगले आदेश होने तक विनिर्दिष्ट करती है।

उक्त अधिनियम में निहित कर्तव्यों एवं दायित्वों के निर्वहन के अलावा श्री नवीन कुमार सैनी, उक्त अधिनियम में निहित माध्यस्थता बोर्ड के अंतर्गत लोक प्राधिकारियों द्वारा किये जाने वाले समस्त कार्यों का समन्वय कार्य भी देखेंगे तथा उपर्युक्त अधिनियम के अंतर्गत माध्यस्थता बोर्ड के मामले में अन्य मंत्रालयों से पारस्परिक कार्य-कलाप के प्रयोजनार्थ नोडल अधिकारी भी होंगे।

उक्त अधिनियम के उद्देश्य से माध्यस्थता बोर्ड के अध्यक्ष के नियुक्त होने तक श्री रनवीर सिंह, निदेशक (विभागाध्यक्ष) माध्यस्थता बोर्ड, श्रम और रोजगार मंत्रालय अपीलीय अधिकारी होंगे।

इसे सचिव, श्रम और रोजगार मंत्रालय के अनुमोदन से जारी किया जाता है।

[फा. सं. जैड-20025/1/2007-प्रशा. III]

एस. के. श्रीवास्तव, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF LABOUR AND EMPLOYMENT

NOTIFICATION

New Delhi, the 17th December, 2008

S.O. 2920(E).—In exercise of powers conferred under Section 5(1) read with Section 2(C) of the Right to Information Act, 2005 (No. 22 of 2005), the Central Government, Ministry of Labour and Employment designates Shri Naveen Kumar Saini, Senior Clerk (Judicial) in Board of Arbitration, Ministry of Labour and Employment as Central Public Information Officer in respect of the 'public authority' namely, the Board of Arbitration with immediate effect and until further orders.

In addition to his duties and responsibilities to carry out the purposes of the said Act, Shri Naveen Kumar Saini will also coordinate all actions taken up by the public authorities under the Board of Arbitration for carrying out the purposes of the said Act and shall be the Nodal Officer for the purposes of the said Act in respect of Board of Arbitration to interact with other Ministries.

Shri Ranbir Singh, Director (HOD), Board of Arbitration, Ministry of Labour and Employment shall be the Appellate Authority till the time of joining of Chairman, Board of Arbitration for the purpose of the said Act.

This issues with the approval of Secretary, Ministry of Labour and Employment.

[F. No. Z-20025/1/2007-Admn. III]

S. K. SRIVASTAVA, Jt. Secy.